JHARKHAND ROAD PROJECTS IMPLEMENTATION COMPANY LIMITED

Regd. Office: 443/A, Road No. 5, Ashok Nagar, Ranchi - 834002

Tel.: + 91 651 2247410 Fax: + 91 651 2240952

CIN: U45200JH2009PLC013693

May 30, 2023

To
The Vice President,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
'Exchange Plaza', Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400 051

Subject: Newspaper publication pursuant to approval of the Audited Financial

Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2023 (Pursuant to Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015)

Dear Sir / Madam,

As per the requirement of Regulation 52(8) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), we hereby furnish copy of Newspaper Publication dated May 30, 2023 published in Financial Express and Ranchi Express pursuant to approval of the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2023. Please note that the Financial Results were approved in the Board Meeting held on May 29, 2023.

Kindly take the same on record.

Thanking you Yours faithfully,

For Jharkhand Road Projects Implementation Company Limited

Parag Phanse Director DIN: 08388809

Encl: a/a

🔞 SUGAR AND (D) IND COR

K.C.P.SUGAR AND INDUSTRIES CORPORATION LIMITED Registered Office: 'Ramakrishna Buildings', No.239, Anna Salai, Chennai - 600 006

CIN: L15421TN1995PLC033198

Tel: 044 - 28555171 - 176 / Fax: 044 - 28546617 / e-mail: secretarial@kcpsugar.com / www.kcpsugar.com EXTRACT OF THE STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR

E	NDED 31.03.2023 PURSUANT TO RE	GULATIO	N 47 OF S	EBI (LOD	R) REGU	LATIONS,	2015				are data
Т		STANDALONE				CONSOLIDATED					
s.	M000A F (7450AF (2784AF 4700AF)	0	uarter Ended	1	Year En	ded	Q	uarter Ended	Successor	Year E	nded
Vo.	PARTICULARS	31.03.2023 (Audited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	Marie Bridge Control of the Control	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	31.03.2022	31.03.2023 (Audited)	31.03.2022 (Audited)
1.	Total Income	4345.66	11667.53	4902.19	28678.52	28264.48	5278.31	(Unaudited) 12535.98	(Audited) 5975.92	35704.16	33543.52
2.	Net Profit / (Loss) for the period before tax, Exceptional and Extraordinary Items	(826.78)	4053.61	(540.98)	4233.89	(259.92)	(763.08)	3259.31	(545.55)	5222.89	515.37
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	(344.13)	4563.90	(540.98)	5907.04	(259.92)	(280.43)	3769.60	(545.55)	6896.04	515.37
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax, Exceptional and Extraordinary Items	(875.81)	4368.67	(390,60)	4953,48	(174.09)	(846.84)	3810,61	(455.73)	5715.41	357.74
5.	Profit / (Loss) from Discontinued Operations	4	(14)	(55.10)		(4)	H		(55.10)	5	-
6.	Other Comprehensive Income	(16.71)	3(-1)	(18.43)	(16.71)	(18.43)	(22.79)	18.89	(71.09)	53.42	(46.11)
7.	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income for the period (after tax))	(892.52)	4368.67	(464.13)	4936.77			(581.92)	5768.83	311.63	
8.	Equity Share Capital (F. V. Re.1/- per share)	1133.85	1133.85	1133.85	1133.85	1133.85	1133.85	1133.85	1133.85	1133.85	1133.85
9.	Reserves (Excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet				30420.05	25596.67				36049.22	30393.77
10.	Earnings per share - Basic and Diluted from Continuing Operations - Basic and Diluted from Discontinued Operations - Basic and Diluted from Continuing and Discontinued Operations	(0.77) - (0.77)	3.85 - 3.85	(0.36) (0.05) (0.41)	4.37 - 4.37	(0.17) - (0.17)	(0.75) - (0.75)	3.36 - 3.36	(0.46) (0.05) (0.51)	5.04 - 5.04	0.27 - 0.27

1. Sugar Industry being a seasonal industry and of a predominantly cyclical nature, the above results cannot be construed as an indicator for the inter - period comparison between the guarters within a financial year.

Figures for the previous periods have been reclassified, wherever necessary, to conform to the current period's classification.

- 3. The above statement has been prepared to the extent applicable, in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised Accounting Practices and Policies adopted by the Company.
- 4. The above Standalone and Consolidated Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 29.05.2023.
- unmodified opinion was placed before the Board of Company 6. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Yearly Audited Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of
- the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Yearly Audited Standalone and Consolidated Financial Results are available in the Stock Exchange Websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's Website at www.kcpsugar.com

Place: Chennal Date: 29.05.2023

(By Order of the Board)

Quarter ended

Managing Director Place- Navi Mumbai

5. The Above Standalone and Consolidated Financial Results for the period ended 31.03.2023 have been duly audited by the Statutory Auditor of the Company and their Report with

for K.C.P. SUGAR AND INDUSTRIES CORPORATION LIMITED IRMGARD VELAGAPUDI

Date: - 29/05/2023



nttp://www.itnlindia.com/JRPICL-SPV.aspx CIN: U45200JH2009PLC013693 Extract of Audited Financial Results for the Year ended March 31, 2023

> (Rs. in Lakhs) Year Ended

	Particulars	March 31, 2023 (Unaudited)	December 31, 2022 (Unaudited)	March 31, 2022 (Unaudited)	March 31, 2023 (Audited)	March 31, 2022 (Audited)
	Total Income from Operations	8,918	7,944	9,129	33,434	34,172
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(5,373)	4,522	(11,381)	1,815	(7,710)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(5,373)	4,522	(11,381)	1,815	(7,710)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(5,373)	4,522	(11,381)	1,815	(7,710)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other	(5,373)	4,522	(11,381)	1,815	(7,710)
	Comprehensive Income (after tax))					
6	Paid-up equity share capital (face value - ₹ 10 per share)	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950
7	Reserves (excluding revaluation Reserve)	(43,701)	(38,328)	(45,516)	(43,701)	(45,516)
8	Securities Premium Account	-	-	-	-	-
9	Net worth	(17,751)	(12,378)	(19,566)	(17,751)	(19,566)
10	Paid-up Debt Capital / Outsatnding Debt	189,091	183,590	188,864	189,091	188,864
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-	-
12	Debt Equity Ratio (number of times)	(10.65)	(14.83)	(9.65)	(10.65)	(9.65)
13	Earnings per share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (*Not annualised):			1		
	(a) Basic	(2.07)	1.74	(4.39)	0.70	(2.97)
	(b) Diluted	(2.07)	1.74	(4.39)	0.70	(2.97)
14	Capital Redemption Reserve	-	-	3 3		-
15	Debenture Redemption Reserve	11,409	9,594	9,594	11,409	9,594
16	Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (number of times)	0.83	1.58	1.81	1.34	1.80
17	Interest Service Coverage Ratio (ISCR) (number of times)	0.83	-	1.81	1.70	1.80

Notes

- 1 The above is an extract of the detailed format of financial results filed with Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Lisiting and other disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of the half year financials results are available on the websites of the National Stock Exchange (NSE) -www.nseindia.com and the Company's - www.itnlindia.com/JRPICL-SPV.aspx
- 2 For the items referred in the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures can be accessed on the (www.nseindia.com) and on the Company's website - www.itnlindia.com/JRPICL-SPV.aspx
- The above results for period ended March 31, 2023 are in complinace with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified by the Ministry of Corporate Affairs, read with SEBI Circular No. CIR/CFD/ FAC/69/2016 dated August 10, 2016.
- 4 The above financial results of the Company for the year ended March 31, 2023 has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on May 29, 2023 and have been audited by the Statutory Auditor of the Company.

For and on behalf of the Board Parag Phanse

STANDALONE

Director

(₹ in Lakhs)

Date: May 29, 2023

Place: Mumbai

DIN: 08388809



UCAL FUEL SYSTEMS LIMITED

Regd Office: 11B/2 (S.P) 1st Cross Road, Ambattur Industrial Estate, Chennai - 600 058. Tel. No: 044-66544719, E-mail Id: ufsl.ho@ucal.com Website: www.ucalfuel.com, CIN: L31900TN1985PLC012343

STATEMENT OF AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31.03.2023

			Quarter Ended	Year Ended		
S.No	Particulars	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
		AUDITED	UNAUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED
1	Total income from operations (Gross)	11,820.25	14,287.27	12,827.17	58,704.46	54,778.25
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, exceptional and / or extraordinary items)	(535.22)	186.52	6.16	1,290.53	845.12
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary					
	items)	(535.22)	186.52	6.16	1,290.53	845.12
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary				275	
	items)	(373.38)	105.10	250.94	859.01	793.50
5	Total comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (loss) for the period					
	(after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	(316.54)	66.75	216.12	915.85	758.68
6	Equity Share Capital	2,211.36	2,211,36	2,211.36	2,211.36	2,211.36
7	Earnings per share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued			F04.00000000000000000000000000000000000	48.7 G (19.00 Aprel 20.00 Apre	
	operations) - (not annualised)					
	a) Basic	(1.69)	0.48	1.13	3.88	3.59
	b) Diluted	(1.69)	0.48	1.13	3.88	3.59

				CONSOL	IDATED	(₹ in Lakhs
			Quarter Ended	1	Year	Ended
.No	Particulars	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
		AUDITED	UNAUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED
1	Total income from operations (Gross)	18,835.89	20,170.14	19,810.49	83,208.72	81,295.25
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, exceptional and / or extraordinary items	(784.85)	90.57	1,241.96	643.11	3,902.88
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary					
	items)	(784.85)	90.57	1,241.96	643.11	3,902.88
	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary					
	items)	(658.51)	24.20	1,270.90	85.25	3,488.62
5	Total comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (loss) for the period					
	(after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	(1,125.67)	126.87	1,439.61	623.36	3,755.22
3	Equity Share Capital	2,211.36	2,211.36	2,211.36	2,211.36	2,211.36
	Earnings per share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued					
	operations) - (not annualised)					
	a) Basic	(2.98)	0.11	5.75	0.39	15.78
	b) Diluted	(2.98)	0.11	5.75	0.39	15.78

NOTES

Place : Chennai

Date: 29.05.2023

The above is an extract of the detailed format of Audited Quarterly / Yearly year. Financial Results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations ,2015. The full format of the Audited Quarterly / Yearly Financial Results are available on the Stock exchange web sites. (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website(www.ucalfuel.com).

JAYAKAR KRISHNAMURTHY

Chairman and Managing Director

FOR UCAL FUEL SYSTEMS LIMITED



Particulars

1 Total Income from Operations

2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,

TEMBO GLOBAL INDUSTRIES LIMITED

CIN: L29253MH2010PLC204331

Audited

5,687.

Quarter ended

Audited

8,754.24

Regd. Off.: Plot No. PAP-D-146-147, Turbhe MIDC, TTC Industrial Area Opp. Balmer Lawrie Van Leer Co. Turbhe Navi Mumbai - 400 705; Tel: 22 27620641 Website: www.tembo.in

Year ended

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023 (Rs. in Lakhs, Except EPS)

Standalone

Consolidated Year ended Quarter ended 31.03.2023 31.03.2022 31.03.2023 31.03.2022 31.03.2023 31.03.2022 31.03.2023 31.03.2022 Audited Audited Audited 25,025.29 17,790.6 184.07 787.73 429.50 404.79 300.59 579.13 315.34 578.68 315.83 301.08

458.68 Exceptional and/or Extraordinary items#) 186.14 421.96 790.81 3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items# 132.84 318.53 582.21 458.68 130.77 4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) 319.02 581.76 345.01 129.96 132.03 5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 319.02 581.76 345.01 129.96 578.68 315.83 132.03 301.08 6 Equity Share Capital 1110.37 1004.60 1110.37 1110.37 1110.37 1004.60 1110.37 1110.37 7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 2,932.2 2,877.99 as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 8 Earnings Per Share (of Rs. /- each) (for continuing and discontinued operations) -Basic: 1.20 3.14 3.17 5.24 3.43 1.18 2.99 5.22 5.22 2. Diluted: 1.20 3.17 5.24 3.43 1.18 2.99 3.14

NOTES:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the National Stock Exchange(s) and the listed entity. (https://neaps.nseindia.com/NEWLISTINGCORP)
- The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.
- # Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

For Tembo Global Industries Limited

Mr. Sanjay Jashbhai Patel **Managing Director** DIN:- 01958033

For year ended

One International Center Private Limited

(formerly Indiabulls Real Estate Company Private Limited) Corporate Identity Number (CIN): U70101HR2005PTC077759 Registered Office: Plot No. 448-451, Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon, Haryana - 122016.

Extract of Financial results for the quarter and year ended 31 March 2023 (Rs. in millions)

	Quarter Ended		For year ended			
Particulars	31 March 2023	31 December 2022	31 March 2022	31 March 2023	31 March 2022	
	(Unaudited) (Refer note 2)	(Unaudited)	(Unaudited) (Refer note 3)	(Audited)	(Audited)	
1. Total income from operations	513.02	550.43	370.78	1,949.40	1,868.26	
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, and exceptional items)	(410.67)	(391.74)	(461.03)	(1,639.74)	(621.31	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	(410.67)	(391.74)	(461.03)	(1,639.74)	(3,589.78	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	(410.36)	(257.24)	(130.99)	(1,121.78)	(3,289.93	
 Total Comprehensive income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] 	(410.10)	(257.32)	(130.98)	(1,121.60)	(3,289.92	
Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10 per Equity Share)	38.34	38.34	38.34	38.34	38.34	
7. Reserves (excluding revaluation reserve)	(577.55)	(167.37)	544.06	(577.55)	544.0	
8. Securities Premium Account	8,239.37	8,239.37	8,239.37	8,239.37	8,239.3	
9. Net Worth*	(539.21)	(129.02)	582.40	(539.21)	582.4	
10. Paid up debt capital / outstanding debt	28,681.96	26,111.73	25,750.17	28,681.96	25,750.1	
11. Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA	NA	N	
12. Debt Equity Ratio**	(53.19)	(202.38)	44.21	(53.19)	44.2	
13. Earnings Per Share (EPS) (not annualized, except for the year ended 31 March 2022 and 31 March 2023)-Basic and Diluted (Amount in Rs.)	(107.03)	(67.09)	(34.17)	(292.59)	(858.10	
14. Capital Redemption Reserve	0.23	0.23	0.23	0.23	0.2	
15. Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	N	
16. Debt Service Coverage Ratio***	0.12	0.46	0.28	0.23	0.5	
17. Interest Service Coverage Ratio****	0.59	0.63	0.38	0.56	0.6	

* Net Worth = Equity Share Capital + Reserves **Debt Equity Ratio = Debt/(Equity + Reserves)

Debt Service Coverage Ratio = Earning before Depreciation, Interest and Tax/(Interest + Principal Repayment) *Interest Service Coverage Ratio = Earnings before Depreciation, Interest and Tax/Interest Expense

Notes to the Financial Results:

- 1. These financial results of One International Center Private Limited ('the Company') for the year ended 31 March 2023 have been approved by the Board of Directors ('the Board') and the Audit Committee at their respective meetings held on 29 May 2023 and have been audited by the statutory auditors of the Company. These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards (as amended) as specified in section 133 of the Companies Act, 2013 and in terms of Regulation 52 of the SEBI (Listing Ogligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations').
- 2. Figures for the quarter ended 31 March 2023 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year ended 31 March 2023 and the reviewed figures for the nine months period ended 31 December 2022.
- The figures for the corresponding quarter ended 31 March 2022 represents the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year ended 31 March 2022 and the reviewed figures for the nine months period ended 31 4. ICRA has assigned the long-term rating of "BBB +" (Stable) to long-term fund based borrowings of the Company.
- The above is an extract of the detailed format of the quarterlly and Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges
- under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and Annual financial results are available on the website of BSE (http://www.bseindia.com)

For and on behalf of Board of Directors

Place: Mumbai Date: 29 May 2023

Prakash Gupta Director [DIN: 05357983]

Shyam Sunder Malani

DIN: 03182609

SHREM INFRA STRUCTURE PRIVATE LIMITED

CIN: U65100MH2014PTC254839 Registered Office: 1101 VIRAJ TOWERS, JN OF ANDHERI KURLA ROAD W. E. HIGH WAY, ANDHERI (EAST), MUMBAI-400093

website www.shrem.in, e-mail: shremgroup@shrem.in FYTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 03 2023

					Rs in Thousan
Sr No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter ended 31.03.2022 (Unaudited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)	Year ended 31.03.2022 (Audited)
1	Total income from Operations (Net)	2,38,787	5,18,601	14,03,631	10,20,128
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	2,24,061	4,35,774	10,81,781	2,00,50,695
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	2,24,061	4,35,774	10,81,781	2,00,50,695
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	2,21,374	8,65,923	9,31,330	1,99,27,403
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-2,09,107	9,19,153	25,18,778	2,15,30,892
6	Paid up Equity Share Capital	8,00,000	8,00,000	8,00,000	8,00,000
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	2,74,48,872	2,16,34,688	2,74,48,872	2,16,34,688
8	Securities Premium Account	7,60,852	7,60,852	7,60,852	7,60,852
9	Net worth	2,90,10,021	2,31,95,606	2,90,10,021	2,31,95,606
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	47,28,622	67,25,625	47,28,622	67,25,625
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	9900	E	A150765 (#E E	(b), 30
12	Debt Equity Ratio	0.16	0.29	0.16	0.29
13	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-	85.3070	3.000		100000
	1. Basic:	-2,61	11.49	31.48	269.14
	2. Diluted:	-2.61	11.49	31.48	269.14
14	Capital Redemption Reserve	-	1 8	9.0	
15	Debenture Redemption Reserve	4,29,000	4,94,000	4,29,000	4,94,000
16	Debt Service Coverage Ratio	3.46	86.43	3.46	86.43
17	Interest Service Coverage Ratio	3.39	5.92	3.39	5.92

- # Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.
- 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchange - National
- Stock Exchange (NSE) website "www.nseindia.com" and Company's website "www.shrem.in". 2. For the other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the stock exchange (NSE) and can be accessed on the www.nseindia.com" and Company's website "www.shrem.in".
- Previous period figure have been regrouped/rearranged wherever necessary to correspond with the current period / year classification / disclosures. 4. The figures for the quarter ended 31st March, 2023 and 31st, March 2022 as reported in these financial results, are the balancing figures between the

unaudited figures in respect of the year to date figures upto nine months and unaudited figures upto half year of the relevant financial years. Date: 26.05.2023 Director

वाटर एटीएम मामले में सदर विधायक ने दी प्रक्रिया,

कहा वर्तमान सरकार की है नाकामी

▶ मुझे हर्ष है की अब कांग्रेसी भी बोलने लगे हमारी भाषा, अपनी सरकार की विफलता को खुद कर रहें हैं उजागर- सदर विधायक

अयोजना सुचारू हो और हजारीबाग की जनता को मिले इसका लाभ - मनीष जायसवाल

हजारीबाग - हजारीबाग शहर के 20 प्रमुख स्थानों पर विधायक निधि से वाटर एटीएम लगाया गया। जो भाजपा सरकार में बनकर तैयार हुआ लेकिन झारखंड में गंठबंधन की सरकार आने के बाद इसपर ग्रहण लग गया और बनने के बाद शुचारु नहीं हो सका। सोमवार को इसे लेकर बात उठाई। हाल ही में बीते जिला बीस सत्री के

टाटीझरिया - टाटीझरिया

प्रखंड कार्यालय में जिला विधिक

शिविर के तहत मन का मिलन

पखवाडा के तहत जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।

जहां मुख्य रूप से जिला विधिक से

रीना वर्मा, नेहा मंजु, प्रमुख संतोष मंडल, उपप्रमुख रवि वर्णवाल,

बीडीओ शाईनी तिग्गा, सांसद

प्रतिनिधि कैलाशपति सिंह, महेश

अग्रवाल, विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र

यादव, उपेंद्र पांडेय समेत अन्य

उपस्थित थे। जिला से नियुक्त रीना

वर्मा ने इस जागरूकता पखवाडा का लाभ लेने का अपील किया। प्रमुख

संतोष मंडल ने कहा कि यह जागरूकता का लाभ लेना है।मन का

मिलान का अर्थ ही होता है आपस

में मिल कर रहना है। वही जिला

विष्णगढ - डीवीसी के सीएसआर विभाग द्वारा

बनासो पंचायत के नावाटांड़ में सोमवार को

स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण जागरूकता

अभियान चलाया गया। सामुदायिक भवन में

आयोजित कार्यऋम में गांव की किशोरियों को

स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। कहा गया

कि माहवारी के दिनों में सफाई बहुत आवश्यक है।

कपड़े के इस्तेमाल से संऋमण का खतरा बन जाता

है। बरसात में संक्रमण की अधिक संभावना होती

है। लिहाजा उस वक्त सेनेटरी नेपिकन का इस्तेमाल

करना चाहिए। वहीं पर्यावरण संरक्षण को लेकर

प्रखंड कार्यालय में मन का मिलन पखवाडा

के तहत जागरूकता कार्यशाला का आयोजन

विधिक से आए रीना वर्मा ने कही कि आपसी मिल कर चलना हम सबको जरुरी है। आपसी विवाद को

आपस में निपटाना को लेकर जागरूकता फैलाना है। जिला में अगर मामला जाता है तो उसके लिए

हमलोग जिला में समझौता कराने के लिए तैयार है। आपलोग इस विधिक शिविर का लाभ जरूर उठाये।

डीवीसी ने नावाटांड़ में चलाया स्वच्छता एवं

पर्यावरण संरक्षण जागरूकता अभियान

हजारीबाग के कांग्रेस के नेताओं ने वाटर एटीएम के पास जाकर सफेद फल माला अर्पित किया। इसपर हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे हर्ष है कि अब कांग्रेसी भी हमारी भाषा बोलने लगे हैं और अपनी सरकार की विफलता को खुद उजागर कर रहे हैं। उन्होंने कहा की वाटर एटीएम का सुचारू नहीं हो पाना वर्तमान गठबंधन की सरकार की नाकामी का ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि एक नेक सोच के साथ हजारीबाग शहर के जरूरतमंद लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विधायक निधि की राशि का मैंने अनुशंसा किया था। सरकार की यह जवाबदेही बनती है कि विधायक निधि के राशि का फायदा जनता को मिले। लेकिन इसे अधिष्ठापान कराने वाली संवेदक एजेंसी पर कुंडली मारकर वर्षों से बैठे रहने के बावजूद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर मैंने कई स्तर पर नाते इस मद्दे को गंभीरता से उठाया। जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री और सरकार के अभिन्न अंग भी यहां मौजूद रहे। मेरे द्वारा बैठक में मामला उठाए जाने के पश्चात जिला प्रशासन द्वारा संबंधित संवेदक एजेंसी को पत्राचार भी किया गया है। विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र का विकास और जनहित हमारे लिए सर्वोपरि है और सरकार की फंड का हम सिर्फ अनुशंसा करते हैं। क्रियान्वयन सरकार को कराना है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह योजना महत्वपूर्ण है और हजारीबाग की जनता को इसका लाभ अवश्य मिलना चाहिए। राज्य सरकार को तत्काल जनहित में से सुचारू कराना चाहिए और संबंधित संवेदन एजेंसी पर कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। विधायक मनौष जायसवाल ने यह भी कहा कि कांग्रेसियों ने खुद इस मामले को उठाकर यह बता दिया कि वर्तमान झारखंड की गठबंधन की सरकार जनहित में कोई काम नहीं करना चाहती है।

दक्षिण पूर्व रेलवे - निविदा

ई-निविदा सचना संख्या: टीआरडी-आरएनसी-23 24-5, दिनांक: 26.05.2023। भारत के राष्ट्रपति वे लिए तथा उनकी ओर से वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंत (टीआरडी), दक्षिण पूर्व रेलवे, रांची निवदा सूचना संख्याः टीआरडी-ओरएनसी-23-24-5, दिनोंक: 26.05.2023 के तहत ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं। **कार्य का संक्षिप्त विवरण:** रांची मंडल के एमईए को पूरा करने के लिए स्टेशनों पर सुविधाओं के प्रावधान के चलते ओएचई का रूपांतरण (14 स्टेशनों पर पीएफ ऊँचा करना/विस्तार, 05 स्टेशनों पर आरडीएसओ पीएफ शेड, 02 स्टेशनों पर एफओबी)। कार्य की अनुमानित लागत: ₹ 83.19.601.25 । जमा बयाना राशि/बोली प्रतिभति: ₹ 1.66.400। बंद होने की तारीख और स**मय:** 26.06.2023 को अपराह्न 3.00 बजे। **वेबसाइट** का विवरण www.ireps.gov.in। निविदा का विवरण वेबसाइट http://www.ireps.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदादाता/ बोलीदाताओं के पास क्लास-III डिजीटल सिग्नेचर प्रमाणपत्र अवश्य होना वाहिए और उन्हें आईआरईपीएस पोर्टल पर अवश्य पंजीकृत होना चाहिए। सिर्फ पंजीकृत निविदादाता बोलीदाता ही ई-निविदा में भाग ले सकते हैं। ई-निविदा में भाग लेते समय निविदादाता को निविदा दस्तावेज के साथ सभी सम्बंधित कागजात अवश्य अपलोड करने (PR-218)

कार्यालय : असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची E-mail id - csofficeranchi@yahoo.com

Re- e-Tender No.: 1870 Date 29-5-2023

अति अल्पकालीन पुर्न ई- निविदा

सदर अस्पताल, रॉची एवं संलग्न अस्पतालो के लिए दवादि एवं केमिकल के कय हेतु निबंधित निर्माणकर्ता / प्रतिष्ठानों / फर्म से दिनांक 14.6. 2023 के अपराहन 5.00 बजे तक ई-निविदा आमंत्रित किया जाता है ई–निविदा से तकनीकि विवरण ∕ स्पेशिफिकेशन ∕ संबंधित नियम ∕ शर्त आदि website http://jharkhandtenders.gov.in पर दिनांक 31.5.2023 से देखा जा सकता है। ई–निविदा से संबंधित किसी प्रकार का परिवर्तन / शुद्धि पत्र website http://jharkhandtenders.gov.in पर ही प्रकाशित किया जाएगा।

PR 298581Health Med Edu and Family Welfare(23-24)#D

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,राँची



सार्वजनिक सूचना

सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक 1730(3)/रा० दिनांक 19.05.23 द्वारा विज्ञापन सं०–01/2017 (नियमित रिक्ति) एवं 02/2017 (बैकलॉग रिक्ति) के आलोक में इन्टरमीडियट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 के राज्य स्तरीय मेघा सूची के आधार पर झारखण्ड कर्मेचारी चयन आयोग के पत्रांक 908 दिनांक 07.05.23 के कंडिका–5 में निहित निदेश पर राँची समाहरणालय के लिए सीधी नियुक्ति के तहत् अनुशंसित कुल— 30 (तीस) निम्न वर्गीय लिपिक (जिला समाहरणालय) की शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य ामाण पत्रों की गहन जाँच मूल दस्तावेज से किया जाना है।

विभागीय उक्त निदेश के अनुपालन में उक्त सभी अनुशंसित कुल 30 निम्न वर्गीय लिपिको के प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया

जाँच हेतु निर्धारित स्थल	जाँच हेतु तिथि	अवधि
समाहरणालय भवन ब्लॉक 'ए' कमरा नं0—213 जिला स्थापना शाखा, राँची	06.06.2023	पूर्वाहन- 11.00 से

इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सभी निम्न वर्गीय लिपिक को निदेशित किया जाता है कि वे उक्त जाँच हेतु राँची जिला के विभागीय बेव साइट ranchi.nic.in में अपलोड जाँच पत्रक को डाउनलोड कर जाँच पत्रक में वांछित सभी सुचनाए स्पष्ट एवं स्वच्छ रूप से भरेंगे एवं सभी मूल प्रमाण पत्र / दस्तावेज / वर्त्तमान का पासपोट साइज कलर फोटोग्राफ (एक जाँच पत्रक में एवं एक अलग से) के साथ निर्धारित स्थल में ससमय अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे।

PR 298560 Ranchi (23-24) D

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी

ई - प्रोक्योरमेन्ट सेल, मुख्य अभियंता का कार्यालय, कम्बाईन्ड ऑफिस बिल्डिंग भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची

ई-प्रोक्योरमेन्ट नोटिस (द्वितीय आमंत्रण)(अल्पकालीन)

टेन्डर रेफरेन्स नंo-BCD/CE/22/Bokaro/2023-24िदनांक-29-05-2023

Sl.	कारा का नाम	कार्य का नाम			
1	Construction of 2 Multipurpose Hall and a 10+2 High school Chandrapura, Chandrap block Block in Bokaro I	Rs.1,49,53,616.00	09 Months		
2		Construction of 2 Multipurpose Hall and additional 04 Class room in 10+2 kartik Chandra Sharm High shool under chas block in Bokaro District.			
3	वेबसाइट पर निविदा प्रकाशन की तिथि	02-06-2023			
4	वेबसाइट पर बिंड प्राप्ति के लिए अन्तिम तिथि / समय	12-06-2023 up to 11:00	0 A.M		
5	निविदा प्रकाषित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता	ई – प्रोक्योरमेन्ट सेल मुख्य अधि कम्बाईन्ड ऑफिस बिल्डिंग, भवन		कं रोड, रांची।	
6	प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी का सम्पर्क संख्या	9631476651			
7	ई–प्रोक्योरमेंट सेल का हेल्पलाईन संख्या	9905899979			

केसी भी प्रकार का बदलाव http://jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार की सूचना http://jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

Note: UCAN Registration is mandatory for the Bidders datory for the Bidders नोडल पदाधिकारी, ई — प्रोक्योरमेन्ट सेल, PR.No-295756 मुख्य अभियंता का कार्यालय, कम्बाईन्ड ऑफिस बिल्डिंग, PR 298615Building(23-24)#D भवन निर्माण विभाग, लाईन टैंक रोड, रांची

कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार,रांची

।। आम सूचना ।। राँची / दिनांक-

एतद द्वारा वैसे वाहन स्वामियों को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रकाशन की तिथि से 3(तीन) दिनों के अंदर अपने वाहन का अधतन कागजात ,परिमट शुल्क एवं अंतर शुल्क जमा कर उसकी हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनको आवेदन को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी ।

NAME

PERMIT

Renewal Renewal Permit

स्कूल बस परिमट की सूची :-

VEHICLE NO

S.NO

3.140	VEHICLE NO	NAME	NO	Permit FEE	FEE Status
1	SANJAY KUMAR GUPTA	JH07E0870	120/15	6000	Paid
2	NEHA AGRAWAL	JH01CC4075	221/2016	13500	Unpaid
3	HARENDRA PRASAD	JH01BY0872	111/16	13500	Unpaid
4	HARENDRA PRASAD	JH01BY5947	112/16	13500	Paid
5	HAREMDRA PRASAD	JH01BP9417	250/15	13500	Unpaid
6	HARENDRA PRASAD	JH01BQ1902	249/15	13500	Unpaid
7	CAMBRIAN PUBLIC SCHOOL	JH01BZ8971	46/2018	13500	Unpaid
8	ABHAY KUMAR	JH01CX8939	68/18	13500	Unpaid
9	ABHAY KUMAR	JH01СХ9163	PCOP-67/18	13500	Unpaid
10	CAMBRIAN PUBLIC SCHOOL	JH01AP2758	44/2018	13500	Paid
11	CAMBRIAN PUBLIC SCHOOL	JH01AP2759	48/2018	13500	Paid
12	CAMBRIAN PUBLIC SCHOOL	JH01AP2760	45/2018	13500	Paid
13	CAMBRIAN PUBLIC SCHOOL	JH01BZ7453	43/18	13500	Paid
14	PETER GARI	JH01BK7128	01/15	6000	Paid
		NEW PERMIT			
1	SURESH SAHU	JH01DL9315	i i	6000.00	Paid
2	ANJANI KUMARI	JH08H3991		6000.00	Paid
3	A P JALAN SARASWATI VIDYA MANDIR	JH01DL4558		13500.00	Paid
4	DHIRAJ PRAKASH TIGGA	JH01AT1102		13500.00	Unpaid
5	MUSKAN KUMARI	JH01DG2427		13500.00	Paid
6	MR. PURUSOTTAM DAS SABOO	JH01AD1851		13500.00	Unpaid
7	SHALINI SINGH	JH01CF9057	- 0	13500.00	Unpaid
8	VARSHA SARIKA MINJ	JH01ET9278		13500.00	Unpaid
9	ARADHANA SHUKLA	JH01EZ1226		13500.00	Paid
10	BINDESHWAR BECK	JH01DB7542		13500.00	Unpaid
11	BINDESHWAR BECK	JH01DA8183		13500.00	Unpaid
12	PRABHAT RANJAN	JH01FB9668		13500.00	Unpaid
13	PRABHAT RANJAN	JH01FB5463		13500.00	Unpaid
14	PRABHAT RANJAN	JH01FB2134	1 1	13500.00	Unpaid
15	PRANAV ROY	JH01FB7964		13500.00	Unpaid
16	PRANAV ROY	JH01FB4975	j i	13500.00	Unpaid
17	PRANAV ROY	JH01FB8773		13500.00	Unpaid
18	PRANAV ROY	JH01FB1115		13500.00	Unpaid
19	PRANAV ROY	JH01FB5854		13500.00	Unpaid
20	CAMBRIAN BUBLIC SCHOOL	JH01ET3863		13500.00	Paid
21	CAMBRIAN PUBLIC SCHOOL	JH01ET7948		13500.00	Paid
22	CAMBRIAN PUBLIC SCHOOL	JH01EY4132		13500.00	Paid
23	CAMBRIAN PUBLIC SCHOOL	JH01EY4760		13500.00	Paid
24	CAMBRIAN PUBLIC SCHOOL	JH01EZ2467	I .	13500.00	Paid

PR 298548 Transport(23-24).D

उप परिवहन आयुक्त-सह–सचिव, द0छो०प्रा0परि०प्राधिकार,रांची

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय,कोडरमा

टायरों की नीलामी की सूचना

सर्वसाधराण को सूचित कया जाता है कि कोडरमा जिलाबल के रददीकृत टायरों की नीलामी दिनांक-12.06.2023 को समय 11:00 बजे पूर्वाहन में पुलिस केन्द्र कोडरमा में निर्धारित की जाती हैं, वाहनों के टायरों की विवरणी निम्न प्रकार है:--

क्र0स0	वाहन का नाम	टायर साईज	मात्रा
1.	थारजीप	185/85 R16 LT	०६ अद्द
2.	कमाण्डर जीप	6.00-16	०९ अद्द
3.	मारूति ईरिटगा	185/65 R15	०४ अद्द
4.	बोलेरो / सुमोगोल्ड / सुमोविक्टा	215/75 R15 LT,7.00 - 15 LT	52 अद्व
5.	स्कार्पियो / सफारी	235/70 R16	30 अद्व
6.	407 / 709	7.50-16 LT	25 अद्व

नोट:–नीलामी संबंधित नियम एवं शर्ते पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कोडरमा / पुलिस केन्द्र, कोडरमा के सचनापड़ में देखा जा सकता है।

PR 298530 Police(23-24).D

पुलिस अधीक्षक कोडरमा

मांग सूचना एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

CIN: U67100MH2007PLC174759 **रिटेल केन्द्रीय एवं पंजीकृत कार्यालय** : एडलवाइस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलीना, मुम्बई-400098

प्रतिभूति हित(प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना अधोहस्ताक्षरी प्रतिमूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिव

तथा पुनर्निर्माण के तहत एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ("ईएआरसी") क अधिकृत प्राधिकारी है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियग की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधिकृत प्राधिकारी ने निम्नलिखित कर्जदा (रों) को उनके लिए निर्गत जो नीचे भी दिया गया है, सम्बद्ध माँग सूचना में उल्लिखित राशि क पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए अधिनियम की घारा 13(2) के अंतर्गत एक मांग सूचना निर्गत की है। उपर्युक्त के संबंध में, एतदद्वारा एक बार पुनः कर्जदारों को कथित मांग सूचना में नीचे लिखित तिथिय से भुगतान की तिथि तथा/अथवा कथित कर्जदार(रों) द्वारा क्रियान्वित अन्य दस्तावेजों/प्रलेखनों, यदि कोई हो, के साथ पठित कर्ज के अनुबंध के तहत वसूलीकृत, देय तिथि तक भावी ब्याज सहित यहां नीचे उल्लिखित राशि को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर ईएआरसी कं अदा करने के लिए कहा जाता है । कर्ज के बकाया पुनर्भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में क्रमशः कथित कर्जदार(रों) द्वारा ईएआरसी के पास निम्नलिखित आस्ति गिरवी रखी गई है।

क्र.	ऋण	दूस्ट तथा असाइनर	ऋणी/सह-ऋणियों	मांग सूचना की
सं.	खाता नं.	का विवरण	का नाम	राशि एवं तिथी
	HL/0069 /H/13/00 0015	ईएआरसी ट्रस्ट एससी 423- पूनावाला फिनकार्प लिमिटेड (पहले मैमा हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड)		₹ 8,55,622.16 (रूपये आठ लाख पचपन हजार छः सौ बाईस एवं सोलह पैसे मात्र) 05-05-2023 एवं 08-05-2023 तक

सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण: अचल संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश, आर.एस लाट नं. 859 में 2 कठास, सब प्लाट नं. 859/एम, खाता नं. 97 के अंतर्गत, ग्राम भिठा, पी.एस बरियात, थाना नं. 187, जिला रांची, **चर्त्सीमा** : पूर्व : प्रस्तावित रोड, पश्चिम : प्लाट नं. 863 उत्तर : प्लाट नं. 859/एम, दक्षिण : सब प्लाट नं. 859/एल

*यदि कर्जदार उपर्युक्त के अनुसार ईएआरसी को भुगतान करने में असफल रहते हैं तो ईएआरसी लागतों तथा परिणामों के प्रति कथित कर्जदार(रों) के सम्पूर्ण जोखिम पर अधिनियम की धारा 13(4) तथा प्रयोज्य नियमों के तहत उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा । कर्जदारों व उपर्युक्त आस्तियों को विक्रय, पट्टे अथवा अन्य किसी माध्यम से ईएआरसी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों अथवा इसके तहत निर्मित नियमों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन में सहयोग करता है वह अधिनियम के तहत प्रावधानित के अनुसार जेल जाने तथा / अथवा जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा ।

प्राधिकृत अधिकारी स्थान: रांची दिनांक: 30.05.2023 कृते : एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

Edelweiss

सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने पर मौजूद थे। संघटन विस्तार को लेकर सद्भावना विकास मंच का बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह रहे उपस्थित

बल दिया गया। कहा गया कि जब भी बाजार जाएं

तो घर से थैला लेकर जाएं तथा थैले में ही

दुकानदार को सामान देने के लिए कहें। अपने

शरीर के अलावा आस पड़ोस की भी स्वच्छता को

बनाने की बात कही गई। कार्यक्रम के दौरान

किशोरियों के बीच सेनेटरी नैपकिन का वितरण भी

किया गया। मौके पर मुखिया चंद्रशेखर पटेल,

पंसस राधारानी, प्रधानाध्यापक गंगाधर महतो,

सुरेश राम, गुलाब प्रसाद वर्मा, बासुदेव महतो,

सहिया मंजू देवी, पिंकी देवी, सेविका कुमकुम

कुमारी, सीता देवी समेत कई महिलाएं एवं ग्रामीण

चौपारण - सद्भावना विकास मंच चौपारण प्रखंड के बेला पंचायत में संगठन विस्तार एवं परिचर्चा को लेकर एक बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से सद्भावना विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह चौहान उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य चौपारण प्रखंड के सभी पंचायतों में संगठन का विस्तार एवं संगठन से संबंधित कार्यों से सभी लोगो को अवगत करवाना था। इस बाबत लोगो को संबोधित करते हुए राज सिंह चौहान ने कहा कि सद्भावना विकास मंच प्रशासनिक मित्र के रूप में कार्य कर क्षेत्र में होने वाले सभी प्रकार के पर्व त्यौहार एवं विपदाओं में स्थानीय प्रशासन को सहयोग कर क्षेत्र में विधि व्यवस्था सुदूण करने एवं क्षेत्रवासियो को सहलियत प्रदान करने का कार्य कर रही है। हमलोगो को संगठन से जुड़ी बातों को जन जन तक प्रसारित कर लोगो को संगठन से जोड़ने की आवश्यकता है।

Govt. of Jharkhand, Energy Department Jharkhand Renewable Energy Development Agency (JREDA) 3rd Floor, S.L.D.C. Building, Kusai Colony, Doranda, Ranchi-834002. Ph.: 0651-2491161, Fax: 0651-2491165, E-mail: info@jreda.com; Website: www.jreda.com

ende	er Reference No.: 13/JREDA/CMC/OFFGRID/2	2-23 Dated: 29.05.2023
1	Name of the work	Selection of Agencies for Five Years Comprehensive Maintenance Contract & Operation (CMCO) of total 43 nos. of Solar Mini/Micro Gr Power Plants installed in Hazaribagh, Gumla & Simdega Districts of Jharkhand under DDG (Off-grid) Programme of DDUGJY scheme.
2	Estimated Project cost (Rs.)	Rs 75607365.00
3	Estimated Capacity	724 kWp
4	Period of contract	05(Five) Years
5	Time of completion	90 (Ninety) Days
6	Date of publication of NIT on website: http:// jharkhandtenders.gov.in	31.05.2023 (Wednesday)
7	Date & time of Pre-bid meeting	06.06.2023 (Tuesday) at 1.00 P.M.
8	Last date & time for receipt of online bids	21.06.2023 (Wednesday) upto 05:00 PM
9	Submission of original copies of Bid fee & EMD (Offline)	21.06.2023 and 22.06.2023 up to 5.00 P.M.
10	Technical Bid Opening Date	23.06.2023 (Friday) at 3.00 P.M.
11	Name & address of office inviting tender	Director, Jharkhand Renewable Energy Development Agency(JREDA 3rd Floor, SLDC Building, Kusai, Doranda, Ranchi- 834002 (Jharkhand)
12	Contact no. of procurement officer	0651-2491163/61/7004806449
13	Helpline no. of e-procurement	0651-2491163/61

JHARKHAND ROAD PROJECTS IMPLEMENTATION COMPANY LIMITED Registered Office: 443/A, Road No 5, Ashok Nagar, Ranchi-83400

CIN: U45200JH2009PLC013693

Extract of Audited Financial Results for the Year ended March 31, 2023

(Rs. in Lakhs)

	Particulars	Quarter ended			Year Ended	
		March 31, 2023 (Unaudited)	December 31, 2022 (Unaudited)	March 31, 2022 (Unaudited)	March 31, 2023 (Audited)	March 31, 2022 (Audited)
1	Total Income from Operations	8,918	7,944	9,129	33,434	34,172
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(5,373)	4,522	(11,381)	1,815	(7,710
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(5,373)	4,522	(11,381)	1,815	(7,710
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(5,373)	4,522	(11,381)	1,815	(7,710)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(5,373)	4,522	(11,381)	1,815	(7,710)
6	Paid-up equity share capital (face value - ₹ 10 per share)	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950
7	Reserves (excluding revaluation Reserve)	(43,701)	(38,328)	(45,516)	(43,701)	(45,516)
8	Securities Premium Account	-	-	-	-	
9	Net worth	(17,751)	(12,378)	(19,566)	(17,751)	(19,566)
10	Paid-up Debt Capital / Outsatnding Debt	189,091	183,590	188,864	189,091	188,864
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	777	-	-		
12	Debt Equity Ratio (number of times)	(10.65)	(14.83)	(9.65)	(10.65)	(9.65)
13	Earnings per share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (*Not annualised):					
	(a) Basic	(2.07)	1.74	(4.39)	0.70	(2.97)
	(b) Diluted	(2.07)	1.74	(4.39)	0.70	(2.97)
14	Capital Redemption Reserve	1000000				
15	Debenture Redemption Reserve	11,409	9,594	9,594	11,409	9,594
16	Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (number of times)	0.83	1.58	1.81	1.34	1.80
17	Interest Service Coverage Ratio (ISCR) (number of times)	0.83	40	1.81	1.70	1.80

Date: May 29, 2023

Director, JREDA, Ranchi

- The above is an extract of the detailed format of financial results filed with Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Lisiting and other disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of the half year financials results are available on the websites of the National Stock Exchange (NSE) -www.nseindia.com and the Company's - www.itnlindia.com/JRPICL-SPV.aspx
- For the items referred in the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures can be accessed on the (www.nseindia.com) and on the Company's website - www.itnlindia.com/JRPICL-SPV.aspx
- The above results for period ended March 31, 2023 are in complinace with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified by the Ministry of Corporate Affairs, read with SEBI Circular No. CIR/CFD/

The above financial results of the Company for the year ended March 31, 2023 has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on May 29, 2023

Directo















can be seen on website: http://jharkhandtenders.gov.in & www.jreda.com

PR 298561 Energy (23-24)_D